

केंद्रीय विद्यालय संगठन - हैदराबाद संभाग

एफ ए 1 जुलाई;

कक्षा - आठवी - विषय - हिंदी, एफ ए।

समय 1 ½ घंटे

पूर्णांक 40

प्रश्न : 1 अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए ।
(5)

हमें सदैव परोपकार करते रहना चाहिए । यदि हम यह ध्यान रखे कि दूसरो की सहायता करना सौभाग्य की बात है तो परोपकार करने की इच्छा हमारी सर्वोत्कृष्ट प्रेरणा होगी । वास्तव में तुम्हे इस बात के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि तुमको वह निर्धन व्यक्ति मिला , जिसे दान देकर तुमने स्वयम अपना उपकार किया । धन्य पाने वाला नहीं होता , देने वाला होता है , यह कम महत्व की बात नहीं है कि इस संसार में तुम्हे अपनी दयालुता प्रकट करने की और इस प्रकार पवित्र एवं पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हुआ ।

प्रश्न 1: हमें परोपकार कब करना चाहिए ?

क) सप्ताह में ख) महीने में ग) दस साल में घ) सदैव

प्रश्न 2: दूसरो की सहायता करना कैसी बात है ?

क) दुर्भाग्य ख) अहोभाग्य ग) सौभाग्य घ) भाग्यवान

प्रश्न 3: धन्य कौन होता है ?

क) पाने वाला ख) देने वाला ग) दिलाने वाला घ) भिखारी

प्रश्न 4 : पवित्र का विलोम शब्द है ?

क) अपवित्र ख) मलिन ग) मैला घ) मल

प्रश्न 5 : उपर्युक्त गद्यांश का यह उचित शीर्षक हो सकता है ।

क) भिखारी ख) दान गुण ग) दयालुता घ) परोपकार

प्रश्न II : पद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

पुष्प - पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं ,

अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं ,

द्वार दिखा दूंगा फिर उनको ।

हैं मेरे वे जहाँ अनंत -

अभी न होगा मेरा अंत ।

प्रश्न 1 : कवि तथा कविता का नाम लिखिए? (2)

प्रश्न 2 : कवि फूलों से क्या खींच लेना चाहता है ? (1)

प्रश्न 3 : कवि फूलों को किससे सीचना चाहता है ? (1)

प्रश्न 4 : कवि कलियों को किसका द्वार दिखाना चाहता है ? (1)

प्रश्न III :

निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए । (3 × 4 = 12)

1. वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है ?

2. मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया?

3. "लोगो ने सलाह दी की समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते" । लोगो ने यह सलाह क्यों दी?

4. लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था?

प्रश्न IV

क) शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए । (5)

1. बखत

2. उमर

3. मरद

4. सकूल

5. तमाखू

ख) संज्ञा पहचान कर नाम लिखिए । (3)

1. बदलू

2. सुंदरता

3. गाय

ग) नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिये । ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में बदलाव होना चाहिए । (2)

1. जल

2. हार

घ) विशेषण पहचान कर अलग करके लिखिए । (3)

1. कोमल गात
2. मृदुल वसंत
3. हरे हरे ये पात

प्रश्न V : निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

1. नेहरू जी को चाँद किस बात की याद दिलाता था? (1)
2. बंदी जीवन के दौरान नेहरू जी अहमदनगर के किले में शौक के रूप में क्या करते थे? (1)
3. अहमद नगर के किले से सम्बन्धित किस घटना की याद की जाती है? (3)